



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1729]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2017/ज्येष्ठ, 30, 1938

No. 1729]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2017/JYAISTHA 30, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2017

**का.आ. 1943(अ).**—जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2948(अ), दिनांकित 15 सितंबर, 2016 के द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71 [नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52] मौजूदा किमी 181.805 [डिजाइन किमी 181.805] से मौजूदा किमी 238.695 [डिजाइन किमी 238.819] तक संगरूर - पतरान - खनौरी से पंजाब/हरियाणा सीमा खंड तक को मुख्य अभियंता [राष्ट्रीय राजमार्ग], लोक निर्माण विभाग, पंजाब सरकार (जो इसके बाद “प्राधिकरण” के रूप में उल्लिखित है) के माध्यम से पंजाब राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

और जबकि, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के प्रयोग के लिए फीस संग्रहण हेतु सा.का.नि. 838(अ), दिनांकित 05 दिसंबर, 2008 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 तैयार की है तथा सा.का.नि. 950(अ), दिनांकित 03 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), दिनांकित 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), दिनांकित 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), दिनांकित 16 दिसंबर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), दिनांकित 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), दिनांकित 21 नवंबर, 2014, सा.का.नि. 02(अ), दिनांकित 29 दिसंबर, 2014, सा.का.नि. 220(अ), दिनांकित 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), दिनांकित 8 जून, 2016, सा.का.नि. 1114(अ), दिनांकित 2 दिसंबर, 2016, और सा.का.नि. 248(अ), दिनांकित 14 मार्च, 2017 के तहत संशोधित की है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित और समय-समय पर संशोधित (जो इसके आगे “नियम” के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71 [नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52] के मौजूदा किमी 181.805 [डिजाइन किमी 181.805] से मौजूदा किमी 238.695 [डिजाइन किमी 238.819] तक रा.रा-71 के किमी 181.805 से

238.695 तक खंड के संगरूर - पतरान - खनौरी से पंजाब/हरियाणा सीमा खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस (इसके आगे 'आधार दर' के रूप में उल्लिखित है) पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन के उपयोग हेतु 56.547 किमी [4.67 किमी की समतुल्य लंबाई सहित 0.467 किमी की संरचना (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) को छोड़कर] निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर से उद्गृहीत करती है तथा प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

**तालिका-1**

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत फीस पथकर प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क-लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
पटियाला जिले में पैंड गांव के निकट रारा-71 [नया रारा-52] के मौजूदा किमी 227.500 [डिजाइन चैनेज किमी 227.130] पर	56.547 किमी [नीचे पैरा 3 में दर्शाई गई 0.467 किमी लंबी अवसंरचनाओं को छोड़कर]	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर 10 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपासों के प्रयोग हेतु निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी :-

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त फीस का भुगतान किया जाएगा		दरें जिस पर फीस संदेय है
		लंबाई (किमी में)	लागत (करोड रु. में)	
शून्य				

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, टोल प्लाजा के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के प्रयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं* की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	संदेय फीस दर
पटियाला जिले में पैंड गांव के निकट रारा-71 [नया रारा-52] के मौजूदा किमी 227.500 [डिजाइन चैनेज किमी 227.130] पर	0.467 किमी	4.670 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	<b>कुल लंबाई</b>	<b>4.670 किमी</b>	

\*60 मीटर से अधिक लंबाई वाली अवसंरचनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	60 मीटर से अधिक लंबाई वाली अवसंरचनाएं	लंबाई (किमी)
1	मौजूदा किमी 188.800 [डिजाइन चैनेज किमी 188.825] पर बड़ा पुल	0.068
2	मौजूदा किमी 203.952 [डिजाइन चैनेज किमी 203.977] पर ग्रेड सैपरेटर	0.100
3	मौजूदा किमी 214.813 [डिजाइन चैनेज किमी 214.868] पर ग्रेड सैपरेटर	0.067
4	[डिजाइन चैनेज किमी 229.137] पर बड़ा पुल	0.062
5	[डिजाइन चैनेज किमी 230.645] पर बड़ा पुल	0.090
6	[डिजाइन चैनेज किमी 232.175] पर बड़ा पुल	0.080

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2017-18 के लिए 245.00 रु. (दो सौ पैतालीस रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के लिए अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य दस गुणा फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत सारणी 5 में दी गई है। पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्वधीन है क्योंकि भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के अंतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है। अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा। प्राप्त होने वाली प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और उक्त नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

## सारणी 5

खंड	लंबाई	प्राक्कलित लागत
संगरूर से दोगल कलां [डिजाइन किमी 181.805 से डिजाइन किमी 211.450]	29.645 किमी	463.65 करोड़ रु.
दोगल कलां से पंजाब/हरियाणा सीमा [डिजाइन किमी 211.450 से किमी 238.819]	27.369 किमी	573.96 करोड़ रु.
कुल	57.014 किमी	1037.61 करोड़ रु.

[फ. स. आरडब्ल्यू/एनएच-37016/12/2016/एनएचडीपी-IV/ए]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2017

**S.O. 1943(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2948(E) dated 15<sup>th</sup> September, 2016 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the Sangrur-Patran – Khanauri upto Punjab/ Haryana Border section of NH- 71 from Km. 181.805 to 238.695 section of National Highway No. 71 [New National Highway No. 52] from existing km 181.805 [design km 181.805] to existing km. 238.695 [design km. 238.819] in the State of Punjab to the State Government of Punjab acting through the Chief Engineer [National Highways], Public Works Department, Government of Punjab (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5<sup>th</sup> December, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12<sup>th</sup> October, 2011, G.S.R. 778(E) dated 16<sup>th</sup> December, 2013, G.S.R. 26(E) dated 16<sup>th</sup> January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21<sup>st</sup> November, 2014, G.S.R. 02(E) dated 29<sup>th</sup> December, 2014, G.S.R. 220(E) dated 23<sup>rd</sup> March, 2015, G.S.R. 585(E) dated 8<sup>th</sup> June, 2016, G.S.R. 1114(E) dated 2<sup>nd</sup> December, 2016 and G.S.R. 248(E) dated 14<sup>th</sup> March, 2017, for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 56.547 km [excluding 0.467 km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 4.67 km] for use of the Four Lane with paved shoulders section (hereinafter referred to as “base rate”) on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, for the use of the Sangrur-Patran – Khanauri upto Punjab/ Haryana Border section of NH- 71 from Km 181.805 to 238.695 section of National Highway No. 71 [New National Highway No. 52] from existing km 181.805 [design km 181.805] to existing km. 238.695 [design km 238.819] and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At existing km 227.500 [design chainage km 227.130] of NH-71 [New NH No. 52] near village Paind in Patiala district.	56.547 km [excluding 0.467 km length of structures indicated in Para-3 below]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in Km)	Cost (Rs. in Crore)	
NIL				

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At existing km 227.500 [design chainage km 227.130] of NH-71 [New NH No. 52] near village Paind in Patiala district	0.467 km	4.670 km	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	<b>Total length</b>	<b>4.670 km</b>	

\* Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Structure having length more than 60 m	Length (Km.)
1	Major bridge at existing km 188.800 [Design Chainage km 188.825]	0.068
2	Grade Separators at existing km 203.952 [Design Chainage km 203.977]	0.100
3	Grade Separators at existing km 214.813 [Design Chainage km 214.868]	0.067
4	Major bridge at [Design Chainage km 229.137]	0.062
5	Major bridge at [Design Chainage km 230.645]	0.090
6	Major bridge at [Design Chainage km 232.175]	0.080

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 245.00 (Rupees Two Hundred Forty Five only) for the year 2017-18 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
11. The estimated capital cost of the project is given in Table 5. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

**TABLE 5**

<b>Stretch</b>	<b>Length</b>	<b>Estimated Cost</b>
Sangrur to Dogal Kalan [Design km 181.805 to Design km 211.450]	29.645 km	Rs. 463.65 Cr.
Dogal Kalan to Punjab/ Haryana Border [Design km 211.450 to km 238.819]	27.369 km	Rs. 573.96 Cr.
<b>Total</b>	<b>57.014 km</b>	<b>Rs. 1037.61 Cr.</b>

[F. No. RW/NH-37016/12/2016/NHDP-IVA]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.